



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

7 चैत्र 1934 (श०)  
(सं० पटना 102) पटना, मंगलवार, 27 मार्च 2012

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

-----  
अधिसूचना

1 मार्च 2012

सं० 1 स्था०-208/11-355/वि०सं—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-718, दिनांक 21.05.2004 द्वारा प्रवृत्त बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 विषयक वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-3 एम 2-5-वे०पु०-28/99-4685 वि०(2), दिनांक 25.06.2003, सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1661, दिनांक 10.09.2010 द्वारा प्रवृत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 23.12.2011 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में श्री चन्द्रमोहन झा, सेवानिवृत्त अवर सचिव एवं श्री फूल झा, उप सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 24.08.2000 के प्रभाव से वेतनमान 10,000-325-15,200 रुपये में द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करते हुए तदनुसार वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। अवर सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति के समय इन्हें वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त पदाधिकारियों का वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22(i)(ए)(i) के तहत किया जायेगा। वेतनमान आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा। उच्चतर वेतनमान के पदनाम, कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे।

उपर्युक्त पदाधिकारियों के द्वितीय ए०सी०पी० के लाभ के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर कर्मों को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उनसे अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं कम भुगतान की गई राशि की भरपाई कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

तारा चन्द रजक,

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 102-571+10-डी०टी०पी०।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**